



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 155]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 20, 2016/पौष 30, 1937

No. 155]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 20, 2016/ PAUSA 30, 1937

**कोयला मंत्रालय****अधिसूचना**

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2016

**का.आ. 177(अ).**—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि, इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित परिक्षेत्र की भूमि से कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है ;

और, उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के व्यौरे रेखांक संख्या एनटीपीसी/सीएम/एनसीबी/बीएन/15/01, तारीख 6 अक्टूबर, 2015, का निरीक्षण, मुख्य महाप्रबंधक (खोज प्रभाग), केन्द्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान, गोंदवाना प्लेस, कांके रोड, रांची - 834 001 या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता - 700 001 के कार्यालय में या कलक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ या महाप्रबंधक, तलईपाली कोल माइनिंग प्रोजेक्ट, एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, लालूंगा रोड, घरघोड़ा, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ या महाप्रबंधक (कोयला खनन), कोल माइनिंग डिविजन, एनटीपीसी भवन, कोर-7, स्कोप काम्पलेक्स, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 के कार्यालय में किया जा सकता है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से कोयले का पूर्वक्षेपण करने के अपने आशय की सूचना देती है ;

उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति -

- (i) उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) के अधीन की गयी किसी कार्यवाही से हुई या होने वाली संभाव्य किसी क्षति के लिए अधिनियम की धारा 6 के अधीन प्रतिकर का दावा कर सकेगा ; अथवा

- (ii) उक्त अधिनियम की धारा (13) की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वक्षण अनुज्ञप्तियों के प्रभावहीन होने या उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अधीन खनन पट्टे प्रभावहीन होने के संबंध में प्रतिकर का दावा कर सकेगा और उसे उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (i) से खंड (iv) में विनिर्दिष्ट मदों की बाबत उपगत व्यय को उपदर्शित करने के लिए पूर्वोक्त भूमि से संबंधित सभी मानचित्रों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को परिदत्त कर सकेगा;

इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर, महा प्रबंधक, तलईपाली कोल माइनिंग प्रोजेक्ट, एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, लालूंगा रोड, घरघोड़ा, जिला रायगढ़-496111, छत्तीसगढ़ या महाप्रबंधक (कोयला खनन), कोल माइनिंग डिविजन, एनटीपीसी भवन, कोर-7, स्कोप काम्पलेक्स, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 को भेजेंगे।

### अनुसूची

एनटीपीसी का बनाई कोल माइनिंग ब्लॉक

जिला – रायगढ़, छत्तीसगढ़

(रेखांक संख्या एनटीपीसी/सीएम/एनसीबी/बीएन/15/01, तारीख 6 अक्टूबर, 2015)

क्र.सं.	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का संख्या	तहसील	जिला	क्षेत्र हेक्टेयर में (लगभग)	क्षेत्र एकड़ में (लगभग)	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	औरोईमुड़ा	01	तमनार	रायगढ़	616.22	1522.68	भाग
2.	बनाई	01	तमनार	रायगढ़	718.46	1775.31	भाग
3.	बरकसपाली	03	तमनार	रायगढ़	17.42	43.04	भाग
4.	चारभांटा	13	घरघोड़ा	रायगढ़	19.43	48.01	भाग
5.	केराखोल	01	तमनार	रायगढ़	85.27	210.70	भाग
6.	मुस्कुरा	09	घरघोड़ा	रायगढ़	77.96	192.64	भाग
7.	नूनदरहा	01	तमनार	रायगढ़	137.18	338.97	भाग
8.	सरकारी जंगल	-	तमनार	रायगढ़	34.80	85.99	पूर्ण
कुल क्षेत्र:					1706.74	4217.36	

कुल क्षेत्र: 1706.74 हेक्टेयर (लगभग)

या 4217.36 एकड़ (लगभग)

### सीमा वर्णन :

क – क1 : रेखा ग्राम बरकसपाली के उत्तर भाग में स्थित बिन्दु 'क' से आरंभ होकर उत्तर पश्चिमी दिशा में जाती है और बिन्दु 'क1' पर समाप्त होती है।

क1 – क2 : रेखा ग्राम बनाई के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित बिन्दु 'क1' से आरंभ होकर उत्तर पश्चिमी दिशा में जाती है और बिन्दु 'क2' पर समाप्त होती है।

क2 – क3 : रेखा ग्राम चारभांटा के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित बिन्दु 'क2' से आरंभ होकर उत्तर पश्चिमी दिशा में जाती है और घरघोड़ा-लालूंगा सड़क के पास स्थित बिन्दु 'क3' पर समाप्त होती है।

- क3 – क4 : रेखा ग्राम चारभांटा के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित बिन्दु 'क3' से आरंभ होकर उत्तर पूर्वी दिशा में सड़क के साथ जाती है और बिन्दु 'क4' पर समाप्त होती है।
- क4 – क5 : रेखा ग्राम औरोईमुडा के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित बिन्दु 'क4' से आरंभ होकर उत्तर -पूर्वी दिशा में सड़क के साथ जाती है और बिन्दु 'क5' पर समाप्त होती है।
- क5 – क6 : रेखा ग्राम मुस्कुरा के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित बिन्दु 'क5' से आरंभ होकर उत्तर -पूर्वी दिशा में सड़क के साथ जाती है और बिन्दु 'क6' पर समाप्त होती है।
- क6 – क7 : रेखा ग्राम मुस्कुरा के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित बिन्दु 'क6' से आरंभ होकर दक्षिण -पूर्वी दिशा से गुजरती है और बिन्दु 'क7' पर समाप्त होती है।
- क7 – क8 : रेखा ग्राम नूनदरहा के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित बिन्दु 'क7' से आरंभ होकर दक्षिण -पूर्वी दिशा से गुजरती है और बिन्दु 'क8' पर पाजहार के नदी के पास समाप्त होती है।
- क8 – क9 : रेखा ग्राम नूनदरहा के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित बिन्दु 'क8' से आरंभ होकर दक्षिण -पूर्वी दिशा में पाजहार नदी के साथ जाती है और बिन्दु 'क9' पर समाप्त होती है।
- क9 – क10 : रेखा ग्राम केराखोल के उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित बिन्दु 'क9' से आरंभ होकर दक्षिण -पूर्वी दिशा में पाजहार नदी के साथ जाती है और बिन्दु 'क10' पर समाप्त होती है।
- क10– क11 : रेखा ग्राम बनाई के उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित बिन्दु 'क10' से आरंभ होकर दक्षिण -पूर्वी दिशा में पाजहार नदी के साथ जाती है और बिन्दु 'क11' पर समाप्त होती है।
- क 11– क : रेखा ग्राम बरकसपाली के उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित बिन्दु 'क11' से आरंभ होकर दक्षिण -पूर्वी दिशा में पाजहार नदी के साथ जाती है और बिन्दु 'क' पर समाप्त होती है।

[फा. सं. 43015/21/2015-पीआरआईडब्ल्यू-I]

आर. के. सिन्हा, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF COAL

### NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2016

**S.O. 177(E).**—Whereas, it appears to the Central Government that Coal is likely to be obtained from the land in the locality described in the Schedule annexed hereto;

And, whereas, the plan bearing number NTPC/CM/NCB/BN/15/01, dated the 6<sup>th</sup> October, 2015 containing the details of the areas of land described in the said Schedule may be inspected at the office of the Chief General Manager (Exploration Division), Central Mine Planning and Design Institute, Gondwana Palace, Kanke Road, Ranchi-834001 or at the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata-700001 or at the Office of the Collector, District Raigarh, Chhattisgarh or at the Office of the General Manager, Talaipalli Coal Mining Project, NTPC Limited, Lailunga Road, Ghargoda, District Raigarh-496111, Chhattisgarh or at the office of the General Manager (Coal Mining), Coal Mining Division, NTPC Bhawan, Core-7, SCOPE Complex, 7, Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi-110003;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal from land described in the said Schedule;

Any persons interested in the land described in the said Schedules may—

- (i) claim compensation under section 6 of the said Act for any damage caused or likely to be caused by any action taken under sub-section(3) of section 4 thereof; or
- (ii) claim compensation under sub-section (1) of section 13 of the said Act in respect of prospecting licenses ceasing to have effect or under sub-section (4) of section 13 of the Act for mining lease ceasing to have effect and deliver all maps, charts and other documents relating to the land to show the expenditure incurred in respect of items specified in clauses (i) to (iv) of subsection (1) of section 13 of the said Act;

to the office of the General Manager, Talaipalli Coal Mining Project , NTPC Limited, Lailunga Road, Ghargoda, District Raigarh-496111, Chhattisgarh or at the Office of the General Manager (Coal Mining), Coal Mining Division, NTPC Bhawan, Core-7, SCOPE Complex, 7, Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi-110003, within a period of ninety days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

### SCHEDULE

Banai Coal Mining Block of NTPC Limited  
District Raigarh, Chhattisgarh

(Plan bearing number NTPC/CM/NCB/BN/15/01, dated the 6<sup>th</sup> October, 2015)

Sl. No.	Name of Village	Patwari halka number	Tehsil	District	Area in hectares (approximately)	Area in acres (approximately)	Remarks
1.	Auraimura	01	Tamnar	Raigarh	616.22	1522.68	Part
2.	Banai	01	Tamnar	Raigarh	718.46	1775.31	Part
3.	Barkaspali	03	Tamnar	Raigarh	17.42	43.04	Part
4.	Charbhanta	13	Ghargoda	Raigarh	19.43	48.01	Part
5.	Kerakhhol	01	Tamnar	Raigarh	85.27	210.70	Part
6.	Muskura	09	Ghargoda	Raigarh	77.96	192.64	Part
7.	Nundarha	01	Tamnar	Raigarh	137.18	338.97	Part
8.	Sarkari Jungle	-	Tamnar	Raigarh	34.80	85.99	Full
Total Area:					1706.74	4217.36	

Total area: 1706.74 hectares (approximately)  
or 4217.36 acres (approximately)

Boundary description:

- A -A1: The line starts at point 'A' in the North part of the Barkaspali village, trending in North westerly direction and ends at 'A1'.
- A1-A2: The line starts at point 'A1' in the South Eastern part of the Banai village, trending in North westerly direction and ends at 'A2'.
- A2-A3: The line starts at point 'A2' in the North Eastern part of the Charbhanta village, trending in North westerly direction and ends at 'A3' at the Ghargoda-Lailunga road edge.
- A3-A4: The line starts at point 'A3' in the North Eastern part of the Charbhanta village, trending in North Easterly direction all along the road boundary and ends at 'A4'.
- A4-A5: The line starts at point 'A4' in the North Western part of the Auraimura village, trending in North Easterly direction all along the road boundary and ends at 'A5'.

- A5-A6: The line starts at point 'A5' in the North Western part of the Muskura village, trending in North Easterly direction all along the road boundary and ends at 'A6'.
- A6-A7: The line starts at point 'A6' in the North Eastern part of the Muskura village, trending in South Easterly direction and ends at 'A7'.
- A7-A8: The line starts at point 'A7' in the North Eastern part of the Nundarha village, trending in South Easterly direction and ends at 'A8' at Pajhar Nadi intersection.
- A8-A9: The line starts at point 'A8' in the North Eastern part of the Nundarha village, trending in South Easterly direction all along the Pajhar Nadi and ends at 'A9'.
- A9-A10: The line starts at point 'A9' in the North Eastern part of the Kerakhol village, trending in South Easterly direction all along the Pajhar Nadi and ends at 'A10'.
- A10-A11: The line starts at point 'A10' in the North Eastern part of the Banai village, trending in South Easterly direction all along the Pajhar Nadi and ends at 'A11'.
- A11-A: The line starts at point 'A11' in the North Eastern part of the Bakaspalli village, trending in South Westerly direction all along the Pajhar Nadi and ends at 'A'.

[F. No. 43015/21/2015-PRIW-I]

R. K. SINHA, Jt. Secy.